



THE HINDUSTHAN GROUP®

HUIL®

ISO 9001, ISO 14001
BS OHSAS 45001
BUREAU VERITAS
Certification



HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN : L31300DL1959PLC003141

Regd. Office : Kanchenjunga (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Phone : +91-11-23310001-05 (5 Lines), E-mail : huil@hindusthan.co.in, Website : www.hindusthanurban.com

Date: 5th September, 2022

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001,

Scrip Code 539984

Sub: Intimation of Newspaper Publication under Regulation 30, 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement published in the newspapers, viz., the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Sunday, 4th September, 2022 for giving Public Notice to the Members intimating that the 62nd AGM of the Company will be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 10:00 A.M (IST) through video-conference (VC) /other audio visual means (OAVM).

The above information is also available on the Company's website at www.hindusthanurban.com.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited


(M.L. Birmiwala)
President - Finance & Secretary



Encl: As above

Bhubaneshwar : Plot No. 321, 325/1386, Village Champajhara, P.O. Malipada, District Khurda-752018, (Odisha) Phone : +91-6755-245244, 266, 299 (3 Lines)

Guwahati : Plot No. 1C, Brahmaputra Industrial Park, Vill.: Silla, P.O. College Nagar, North Guwahati, Distt. Kamrup-781 031 (Assam), Phone : +91-361-2130518

Gwalior : Industrial Area, P.O. Birja Nagar, Gwalior-474 004 (M.P.), Phone : +91-751-2421195

Insulators & Electricals Company : 1-8, New Industrial area PB No.1, Mandideep-462045 (M.P.) Phone : +91 7480 350800, 350825, 350804

Bank of India
BOI
 Jhandewalan Extension Branch
 3E/4, Jhandewalan Extension Branch,
 New Delhi-110055

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) Appendix-IV [See rule-8(1)]
 Whereas, The undersigned being the authorised officer of the **BANK OF INDIA, Jhandewalan Extension** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.06.2022 calling upon the borrower **Shri Vishal Kumar** (Proprietor **M/s JMD Silver India**) and Guarantor & Mortgagor **Mrs Babita Srivastava** to repay the amount mentioned in the notice being Rs.30,15,617/- (**Thirty Lakh Fifteen Thousand Six Hundred and Seventeen**) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 31st day of August of the year 2022;
 The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **BANK OF INDIA** for an amount of Rs.30,15,617/- (**Thirty Lakh Fifteen Thousand Six Hundred and Seventeen**) and interest thereon.
 The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
 All that part and parcel of the property consisting of DDA LG, Flat no. 98, Pocket-1, Sector A-9, Narela, Delhi-110040 in the name of Babita Srivastava W/o Mukand Srivastava
 Bounded: On the North by: Open/Park, On the South by: Road, On the East by: Road/Open, On the West by: Flat no. 99/Entry

Date: 31.08.2022 Authorised Officer:
 Place : New Delhi (Bank of India, Jhandewalan Extension)

STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED
 CIN: L27109PB1973PLC003232
 Regd. Off: Village Somalheri Lehi, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.)-140506. Tel : +91-172-2793112. Fax : +91-172-2794834
 Email: ssl_ssg@ide.net.in. Website: www.ssllindia.net

NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.
 Notice is hereby given that:
 1. The 49th Annual General Meeting (49th AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the September 30, 2022 at the Registered Office of the Company at 12:00 p.m. at Regd. Off: Village Somalheri Lehi, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.) to transact the business as set out in the notice dated 11.08.2022.
 2. Copies of the Notice of the 49th AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in physical mode and in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/ Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 1, 2022 and the same is also available on the Company's website www.ssllindia.net
 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date of September 23, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
 4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.
 5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.
 6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 27, 2022 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2022 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2022. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.
 7. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Date : 03.09.2022 For Steel Strips Infrastructures Limited
 Place : Chandigarh Sanjay Garg, Managing Director DIN-00030956

SAB INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L00000CH1983PLC031318
 Regd Off: SCD 49-50, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh-160019.
 Tel : +91-172-2793112. Fax : +91-172-2794834
 Email: ssl_ssg@ide.net.in. Web Site: www.sabindustries.in

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.
 Notice is hereby given that:
 1. The 38th Annual General Meeting (38th AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the September 30, 2022 at the Registered Office of the Company at 3:30 p.m. at SCD 49-50, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh-160019 to transact the business as set out in the notice dated 11.08.2022.
 2. Copies of the Notice of the 38th AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/ Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 1, 2022 and the same is also available on the Company's website www.sabindustries.in
 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date of September 23, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
 4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.
 5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.
 6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 27, 2022 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2022 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2022. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.
 7. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Date : 03.09.2022 For SAB Industries Limited
 Place : Chandigarh Sanjay Garg, Addl. Managing Director DIN-00030956

INDIAN ACRYLICS LIMITED
 CIN: L24301PB1986PLC006715
 Regd. Office: Village Harkishanpura, Sub-Tehsil Bhawanigarh, Distt. Sangrur (Punjab)-148026.
 Email: shares@indianacrylics.com. Website: www.indianacrylics.com
 Phone: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.
 Notice is hereby given that:
 1. The 35th Annual General Meeting (35th AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the September 29, 2022 at the Registered Office of the Company at 11:00 A.M. at Village Harkishanpura, Sub-Tehsil Bhawanigarh, Distt. Sangrur (Punjab)-148026 to transact the business as set out in the notice dated 19.07.2022.
 2. Copies of the Notice of the 35th AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/ Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 2, 2022 and the same is also available on the Company's website www.indianacrylics.com
 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date of September 22, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
 4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.
 5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.
 6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 26, 2022 at 9:00 A.M. and end on September 28, 2022 at 5:00 P.M. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 28, 2022. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.
 7. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 23, 2022 to September 29, 2022 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Date : 03.09.2022 For Indian Acrylics Limited
 Place : Chandigarh Bhavnesh K Gupta, FCS-3255 GM Cum Company Secretary

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED
 (An enterprise of THE HINDUSTHAN GROUP)
 Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
 CIN: L31300DL1959PLC003141. E-mail: investors@hindusthan.co.in
 Website: www.hindusthanurban.com. Phone: +91-11-23310001-05

NOTICE OF THE 62nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
 Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure Limited is scheduled to be held on Tuesday, 27th September 2022 at 10:00 AM through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). In Compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 and all other applicable laws and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the notice of the meeting.
 In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with the company's Registrar i.e. Skyline Financial Services Private Limited, Phone: 011-40450193/197, email: compliance@skylinefi.com; Members may also note that the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2021-22 are also available on the Company's website www.hindusthanurban.com; and website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The dispatch of Notice through email is completed on 3rd September 2022.
 Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has also been provided in the Notice to the shareholders. The details are also available on the Company's website i.e. www.hindusthanurban.com.
 For Hindusthan Urban Infrastructure Limited
 Sd/-
 M.L. Birmiwala
 President- Finance & Secretary

Place : New Delhi
 Date : 03.09.2022

Ritz Mercantile Limited
 Regd. Off.: 603, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-110008
 CIN: L52110DL1985PLC019805

NOTICE TO MEMBERS
 Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the shareholders of RITZ MERCANTILE LIMITED will be held on Monday, the 26th September, 2022 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company to transact the business as mentioned in the notice calling Annual General Meeting.
 Notice is also given that in compliance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the register of members and share transfer books will remain close from 20th September, 2022 to 26th September, 2022 (both days inclusive) for the said AGM of the Company.
 Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM through electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of Alankit Assignments Ltd. the RTA of the Company as the agency to provide e-voting facilities.
 The notice of AGM is also available on the website of the Company. The remote e-voting facility will commence on 23rd September, 2022 at 09.00 a.m. and ends on 25th September, 2022 at 5.00 p.m. The e-voting mode shall be disabled thereafter.
 Any person who acquires shares of the Company and become a member after the dispatch of the AGM notice and holds shares as on the cut-off date viz. 19th September, 2022, may obtain the user name and password by sending a e-mail request to info@alankit.com or call Alankit Toll free number 1800-113300. If a member is already registered with Alankit e-voting, then he can use his existing user ID and Password for casting vote through remote e-voting.
 Facility of voting through Poll (Ballot) paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
 In case of any query, pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's Section available at CDSL website link http://evotingindia.com. The query or grievance connected with the remote e-voting may also be addressed to:-
 Alankit Assignments Ltd., Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan, Extn., New Delhi-110055, Ph. No. 011-4254 1234, 2345 1234, e-mail: rta@alankit.com
 For Ritz Mercantile Ltd.
 Sd/-
 Garvit Singhvi
 Whole-Time Director
 DIN: 00597757

Date: 31.08.2022
 Place: New Delhi

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED
 (CIN: L74899DL1995PLC066194)
 Regd. Office: 218 – 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi – 110034
 Website: www.neerajpaper.com;
 Tel.: +91 11 47527700, Fax - +91 11 47527777

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Friday, 30th September 2022 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, with the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 27th AGM is also available on the Company's website www.neerajpaper.com, on the website of Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 2nd September, 2022.
 The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e - voting period commences on 27th September 2022 at 10:00 A.M. and ends on 29th September 2022 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e - voting shall be Friday, 23rd September 2022. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.
 Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Friday, 23rd September 2022 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beatalrta@gmail.com to obtain the login id and password.
 Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 29th Sept, 2022. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e - voting.
 The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.
 In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (Both days inclusive) for 27th Annual General meeting of Company.

By Order of the Board
 FOR NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED
 Sd/-
 (Mansi)
 Company Secretary

Date: 02.09.2022
 Place: Delhi

CORRIGENDUM - FORM-A
BECKONS INDUSTRIES LIMITED
 Attention of Creditors is drawn to CIRP Public Announcement published in "FORM-A", in this newspaper on 01st September 2022. The Corrected CIN (Sr.No.4) & Registered Address (Sr.No.5) is as follows :-
 CIN : L21017PB1992PLC012574
 Regd. Address : SCF-725, INDIA MARKET JALALABAD (WEST) JALALABAD, Firozpur, PUNJAB-152023.
 Other details and terms & conditions remains unaffected & unchanged.

Sd/-
ANIL ADORA
 Interim Resolution Professional for
BECKONS INDUSTRIES LIMITED
 Date : 03.09.2022 Place : Chandigarh

"IMPORTANT"
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
 Northern Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi – 67
 Tel.: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916. Website: www.hdfc.com

PUBLIC NOTICE
 This has reference to the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this newspaper by the Authorized Officer of HDFC Ltd. This is to inform the public at large that the E-Auction of properties listed AT SERIAL NO. 6 OF MS MANJU SINGH(WIFE /LEGAL HEIR/LEGAL REPRESENTATIVE OF LATE MR SURYA BHAN SINGH (BORROWER) (SINCE DECEASED) mentioned in the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this newspaper stands cancelled till further notice. E-Auction of the rest of the properties as mentioned in the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this newspaper will proceed as per the schedule.

Place: Delhi
 Date : 03-09-2022

For Housing Development Finance Corporation Ltd.
 Sd/-
 Authorised Officer
 Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020

IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW
 Ministry of Finance
 (Department of Economics Affairs)
 600/1 University Road,
 Near Nanaman Saha Mandir Lucknow- 226 007
 (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
 S.A. No.- 449 of 2022

Notice
 Between:
 Vimal Dhangra... Applicant
 Vs.
 Hdfc Housing Finance Corporation Ltd.... Respondent
 To:
 (3) Smt. Babita Gupta, W/o Ramesh Gupta, R/o House No. N-188, Pratap Vihar, P.S. Vijay Nagar, Ghaziabad.
 Whereas, in the above said case, the applicant has made an Application under Section 17 (1) of the SARFAESI Act, 2002, copy of S.A. is herewith enclosed.
 Take notice that you are hereby required to appear before the Registrar of this Tribunal on 10th day of October, 2022 at 10:30 A.M. in the forenoon in person or by a pleader/Advocate to show cause, why the said S.A. should not be allowed. Failing which the said S.A. will be heard and determined ex parte.
 Given under my hand and seal of this Tribunal on 31st day of August, 2022.
 Enclosed: As Above
 Registrar, Debts Recovery Tribunal, Lucknow

PUBLIC NOTICE It is informed that a house number 26 area 100 square yards, khasra number 1108M situated at Mahendra Enclave, Village Razapur, Shastrri Nagar, Ghaziabad-UP was purchased by Shri Manoj Kumar vide sale deed dated 28.02.2002 (Serial number 1214) thereafter he executed a Will dated 24.04.2015 (Serial number 166) in favour of Shri Pramod Kumar, Said Shri Pramod Kumar got ownership rights vide said Will executed a sale deed dated 22.02.2019 in favour of present owner Shri Surendra Pal Singh which was registered in the office of Sub-Registrar, Ghaziabad on dated 22.02.2019 Bahi 1 Zild 7534 Pages 239/344 at Serial number 1316. Now said Shri Surendra Pal Singh obtains financial facility from Hero Housing Finance Ltd. after mortgaging the house in their favour. If any person/institution has any objection regarding ownership of Pramod Kumar proposed financial facility or proposed mortgage, can place his/its objection through the below mentioned mobile no. within ten days from the date of publication. Beyond this period no objection will be admitted. (Meena Diskshit) Advocate, Room No. 88, Law Chamber Building, Meerut Kutchery, Meerut Mobile Number : 9412-203-251

Bank of Baroda Rai Distt. Sonpat

POSSESSION NOTICE (for Immovable property/ies) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002).
 Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the BANK OF BARODA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated on the dates mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.
 The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantor and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned against below mentioned account.
 The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount and interest thereon given below mentioned account.
 The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| Name of Borrower/ Guarantor | Description of Movable/ Immovable property mortgagor | Date of demand notice | Date of possession | Amount O/s |
|--|--|-----------------------|--------------------|---|
| Sh. Satish Kumar S/o Sh. Ishwar Singh S/o Sh. Kundan Lal | Equitable mortgage a Plot in the Name of Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Mehar Singh (Guarantor) resident of Village Asawarpur Tehsil & District Rai measuring 75 sq yards i.e. 1/2 share of total land 150 sq yards i.e. 0K-5M composed in khewat no 725/669 share khata no. 814 killa no 162/1/1 (4-2) 10(3-6) 163/6/1/(4-1) situated in Partap Colony Near Shiv Garden Gopalpur Road Kharkhoda Tehsil Kharkhoda Distt. Sonpat. As per valuation report the Plot is bounded from East (59'-9") House of Satbir, West (59'-9") Part of Plot of Bijender, North (11'-2") Gali and South (11'-2") Land of Other. | 27.06.2022 | 30.08.2022 | Rs. 2471518.88 (Rupees Twenty Four Lakh Seventy One Thousand Five Hundred Eighteen and Eight Paise only) and interest thereon at the contractual rate plus cost, charges and expenses till date of payment. |

Dated: 03.09.2022 Place: Rai Authorised Officer, Bank of Baroda

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
 ...the name you can BANK upon!

Branch Office : Circle Sastra Center, Haldwani (823400), Uttarakhand, Ph. 9557611888, E-Mail : cs8234@pnbc.in

DEMAND NOTICE (60 Days Notice to Borrowers/Guarantors)
NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002
 All the borrowers/guarantors/co-obligants mentioned herein below are notified that loan(s) availed by them from Punjab National Bank is/are NPA/s. The demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 sent through Registered Post/Courier have been received/ returned undelivered. We indicate our intention of taking possession of secured securities whose brief are mentioned below as per section 13(4) of Act in case of their failure to pay the amount mentioned along with future interest and charges within 60 days. The borrower's/guarantor's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section-13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

| Sr. No. | Name & Address of Borrower/ Guarantor | Description of Mortgage Securities | Outstanding Amount |
|--|---|--|---|
| 1. | 1.M/S Anand Enterprises (Borrower) Proprietor Mr. Sunny Arora, Add: Ward no 7 Bank of Baroda Gali Gadarpur, Uttarakhand-263152 | Hypothecation of Stocks and Receivables Created out of the Bank Finance Present & future. Ownership : M/s Anand Enterprises. | ₹ 12,31,019.13 (Rupees Twelve Lakh Thirty Eight Thousand & Thirteen and Paise Only) + interest & other charges w.e.f 01.08.2022 |
| Date of NPA 04.05.2022 Date of Demand Notice 23.08.2022 | | | |
| 2. | 1. Sh. Raju Sharma S/o Sh. Prem Narayan (Borrower), Add: Maa Poornagiri Auto Workshop (Eicher Mechanic), R/o D/41 Near Hydly Office Transport Nagar Haldwani, Uttarakhand-263139. 2. Smt. Jasantra Devi W/o Sh. Prem Narayan (Guarantor), Add: Khet No 499 Min. Village Haldwani Talli Sati Colony Indira Nagar, Distt. Nainital, Uttarakhand 263139. 3. Mr. Narendra Singh S/o jeevan Singh (Guarantor), Add: Village Paschim Kheda Golapur Haldwani, Uttarakhand-263139. | EM of IP Situated at Khet No 499 Min. Village Haldwani Talli Sati Colony Indira Nagar Distt. Nainital 263139 Uttarakhand of area 1068.20 Sq ft. Boundaries- East: 15' wide Road, West: Land Of Bhatt Ji, North: Hem Chand Palariya, South: Land Of Pant Ji. Ownership : Smt. Jasantra Devi W/o Sh. Prem Narayan. | ₹ 7,68,277.30 (Rupees Seven Lakh Sixty Eight Thousand Two Hundred Seventy Seven & Paise Thirty only) + interest & other charges w.e.f 01.08.2022 |
| Date of NPA 30.05.2022 Date of Demand Notice 23.08.2022 | | | |
| 3. | 1. Smt. Priyanka Anand W/o Sh. Manoj Anand (Borrower), Add 1 : D78 Green Park Kashipur Road Rudrapur Uttarakhand 263153 Add2: E3 Bali Vihar Model colony Rudrapur Udhm Singh Nagar Uttarakhand 263153. Add3: Flat No T-1/108 At First Floor Royal Greens Rudrapur Uttarakhand 263153. 2. Sh. Narendar Kaur (Guarantor), Add: Gali No 1, Malik Colony, Rudrapur Udhm Singh Nagar 263153. | EM of IP Situated at Flat No T-1/108 At First Floor in Royal Greens Constructed Upon Bhumidhari Land Comprising of Khalsa No 97 Min Area Admeasuring 1553.44 Sq Ft. E. 144.37 Sq. Meter. Boundaries: East: Lift, West: Flat No T-1/110, North: Raasta 7 Meter, South: Galaxy Ownership : Smt. Priyanka Anand W/o Shri Manoj Anand. | ₹ 16,93,634.15 (Rupees Sixteen Lakh Ninety Three Thousand Six Hundred Thirty Four & Paise Fifteen only) + interest & other charges w.e.f 01.08.2022 |
| Date of NPA 29.06.2022 Date of Demand Notice 23.08.2022 | | | |

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income. The borrowers/ guarantors are advised to collect undelivered original notice(s) addressed to them from our concern Branch and pay the amount outstanding with interest and their costs within 60 days from the date of this publication to void further action under the Act.

Date : 04.09.2022 Place : Haldwani, Distt. Nainital Authorised Officer

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
 ...the name you can BANK upon!

Circle Office- 01 Paltan Bazar, PNB House, Dehradun, Uttarakhand

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/ physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of dues due to the Bank/ Secured creditor from the respective borrower(s), and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

| Lot No. | Name of The Branch Name of the Account Name & Addresses of The Borrower/Guarantor/Mortgagor | Description of the Immovable Properties Mortgaged/Owner's Name (Mortgagers of Property (les)) | SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS | | DATE OF AUCTION | Details of The Encumbrances Known To The Secured Creditors |
|---------|---|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | (A) Reserve Price | (B) EMD | | |
| 1. | Branch: Laxman Jhula Road Rishikesh Borrower : 1. Mis New Tanti Bank Prop.: Smt. Vanajakshi Kallappa alias Vanajakshi Agrawal W/o Mr. Neeraj Agrawal, R/o Bhawan No 43, Gali No. 9, Veerhadra, Rishikesh. Guarantor/ Mortgagor: Shri Neeraj Agrawal S/o Shri Kishori Lal Agrawal, R/o Bhawan No. 43, Gali No. 9, Veerhadra, Rishikesh. | EM of private plot No. 31, Part of premises no. 85/57 area 104.936 sq. mtr. Situated at Laximpura Kanpur owned by Shri Neeraj Agrawal S/o Shri Kishori Lal Agrawal which is registered with S R I Kanpur nagar at Book No. 1, Zild No. 7975, Page 1 to 20 at Sr. No. 285 on 31.01.2017. Bounded & butted as under: East: Nazul Land, West: Balance half portion of building 85/57, North: Other's property, South: Road 7.62 meters wide road. | (A) 20,07,2021 (B) Rs. 32,43,754/- (C) 22.03.2022 | (A) Rs. 1,89,12,000/- (B) Rs. 18,91,200/- (C) 04.10.2022 Up to 05.00 PM | 06.10.2022 From 11:00 | |

केनरा बैंक (A Bank of India Group) **पुनर्गामी जीटी रोड, वेस्टमिनी टॉर्ण्टील, होडल, फरीदाबाद, हरियाणा-121006**

कच्चा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)
 जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.04.2022 जारी कर अधोहस्ताक्षरी, होडल नगर जिला को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 58,20,505.16/- (रु. अठ्ठावन लाख बीस हजार पांच सौ पचाह पाँच पैसे सोलह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

अधोहस्ताक्षरी, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अधोहस्ताक्षरी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 29 अगस्त, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संघटित का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से अधोहस्ताक्षरी तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि ये यहां नीचे वर्णित संघटित का व्यवसाय न करें तथा इन संघटितों को किसी भी तरह का व्यवसाय न करें. 38,99,321.80/- (रु. अठ्ठावन लाख तिन्हावन हजार तीन सौ इकठ्ठौस एवं पैसे अस्सी मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
 पंजीकृत उप जिला होडल तथा जिला फतेहपुर के भीतर खसरा/खाला नं. 147/176, खसरा नं. 702 (10-3), 703 (8-1), खाला/खालानी नं. 139/162, खसरा नं. 702 (10-3), 703 (8-1), रेलवे रोड, होडल में शामिल सम्पत्ति मांग 6 के तथा 1 एम का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दी: उत्तर: रेलवे रोड, दक्षिण: आसारगंज सम्पत्ति/हरिनजन कॉलोनी, पूर्व: दाक दयाल अशोक कुमार का प्लॉट, पश्चिम: व्हाणी मेमोरियल

तिथि: 4.8.2022, स्थान: होडल प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

इण्डियाना एक्स्ट्रेनस शाखा
 3ई/4, इण्डियाना एक्स्ट्रेनस शाखा, नई दिल्ली-110055

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) पाराशट-IV [दख नियम-8(1)]
 जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, इण्डियाना एक्स्ट्रेनस के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.6.2022 जारी कर अधोहस्ताक्षरी श्री विद्याल कुमार (मै. जेम्सजी विस्वर इंडिया के प्रॉप्राइटर) तथा गारंटर एवं मॉर्टगिजर श्रीमती वनीता श्रीवास्तव को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 30,15,617/- (रु. तीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ सतर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अधोहस्ताक्षरी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 31 अगस्त, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अधोहस्ताक्षरी तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि ये यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों को किसी भी तरह का व्यवसाय न करें. 30,15,617/- (रु. तीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ सतर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
 ब्यातां ब्राह्मवल्लभ, पटना मुकुन्द ब्राह्मवल्लभ के नाम में डाइए एनआइएम, फ्लैट नं. 98, फाक-1, सेक्टर ए-9, नरेश, दिल्ली-110040 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
 चौहद्दी: उत्तर: खुलापार्क, पूर्व: रोड/बंगला, दक्षिण: रोड, पश्चिम: फ्लैट नं. 99/प्रवेश

तिथि: 31.8.2022 प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: नई दिल्ली (बैंक ऑफ इंडिया, इण्डियाना एक्स्ट्रेनस)

हिन्दुस्थान कार्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: कंभारवांगा गाँव, ताल, 18 बाराबंका रोड, नई दिल्ली-110001

ई-मेल: investors@hindustan.co.in, वेबसाइट: www.hindusthanurban.com
सीआइएन: एल31300डीएल1969पीएलसी003414, पुराना पं. सं-091-11-23310001-06
वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / ऑन लाइवो विद्युत्कृत माध्यमों (ओवीएएम)
 द्वारा आयोजित की जाने वाली 62वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि साधारण सभ्य संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एफएसए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विवरण बोर्ड (बीसी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सम्बन्धित के अनुपालन में हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों की 62वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को उक्त 10.00 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों (ओवीएएम) द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। उपरोक्त सम्बन्धित के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम सभा की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिन्हें ईमेल एवं कम्प्यूटरी/डिजिटली पॉपुलरिटी के पास पंजीकृत है। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार अथवा सहायक रजिस्ट्रार/सर्विसे प्रोवाइडर लिमिटेड, फोन: 011-4050193/197, ईमेल आईडी: Compliance@skylinetra.com के पास अपना ईमेल तथा मोबाइल नम्बर सूचित करा दें। सदस्यगण ध्यान रखें कि वार्षिक आम सभा की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.hindusthanurban.com तथा रजिस्ट्रार एक्सचेंज अथवा वार्षिक रिपोर्ट लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। ईमेल द्वारा सूचना का प्रेषण 3 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। शेयरधारकों को पास इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर निर्णयों अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल एवं पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए निर्देशित मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.hindusthanurban.com पर भी उपलब्ध है।

हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 3.9.2022 अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: राम भोगंडरी, तरसली सोहन, जिला गुडगाँव, हरियाणा
 ईमेल: compliance.kimia@gmail.com, वेबसाइट: www.kimiabiosciences.com
 CIN: L24239HR1993PLC032120, फोन: 011-47063600, 91 9654206544 +919654746544

फैक्स: 011-47063601/02
वीसी/ओवीएम द्वारा आयोजित की जाने वाली 29वीं वार्षिक आम सभा की सार्वजनिक सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एफएसए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विवरण बोर्ड ("बीसी") द्वारा इस विषय पर जारी वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विवरण बोर्ड (सूचीकृत दायित्व एवं उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के साथ पठित कानून द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सम्बन्धित के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विद्युत्कृत माध्यमों ("वीसी") अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को उक्त 3.30 बजे आ. (आई-एन) के अंतर्गत की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम सभा की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिन्हें ईमेल एवं कम्प्यूटरी/डिजिटली पॉपुलरिटी के पास पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.kimiabiosciences.com तथा रजिस्ट्रार एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी) के वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरंग एजेंट, बीएस कॉन्सल्टिंग एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, बीएस कॉन्सल्टिंग एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर निर्णयों अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल एवं पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए निर्देशित मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.kimiabiosciences.com पर भी उपलब्ध है।

कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 3.9.2022 अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: राम भोगंडरी, तरसली सोहन, जिला गुडगाँव, हरियाणा
 ईमेल: compliance.kimia@gmail.com, वेबसाइट: www.kimiabiosciences.com
 CIN: L24239HR1993PLC032120, फोन: 011-47063600, 91 9654206544 +919654746544

फैक्स: 011-47063601/02
वीसी/ओवीएम द्वारा आयोजित की जाने वाली 29वीं वार्षिक आम सभा की सार्वजनिक सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एफएसए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विवरण बोर्ड ("बीसी") द्वारा इस विषय पर जारी वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विवरण बोर्ड (सूचीकृत दायित्व एवं उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के साथ पठित कानून द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सम्बन्धित के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विद्युत्कृत माध्यमों ("वीसी") अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को उक्त 3.30 बजे आ. (आई-एन) के अंतर्गत की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.kimiabiosciences.com तथा रजिस्ट्रार एक्सचेंज लिमिटेड (कंपनी) के वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरंग एजेंट, बीएस कॉन्सल्टिंग एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, बीएस कॉन्सल्टिंग एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर निर्णयों अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल एवं पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए निर्देशित मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.kimiabiosciences.com पर भी उपलब्ध है।

कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 3 सितम्बर, 2022 अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

रघुनाथ इन्टरनेशनल लिमिटेड
 CIN No.: L52312UP1994PLC022569
 पंजीकृत कार्यालय: 6/226, क्लियर ताल, एनएच 100, एनएच नगर, कानपुर, 208002
 प्रशासनिक कार्यालय: 6926, जयपुरिया मिल, कलाक टावर, सक्की मण्डी, दिल्ली-110007
 वेबसाइट: www.raghunathanlimited.in ई-मेल: rgc.secretarial@gmail.com

28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) एवं रिमोट ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

श्रीम. नोटिस के द्वारा सूचना दी जाती है कि:-
 1. कम्पनी रघुनाथ इन्टरनेशनल लिमिटेड की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को निर्दिष्ट 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 6/226, क्लियर ताल, एनएच 100, एनएच नगर, कानपुर-208002 में आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 07 अगस्त, 2022 की सूचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निष्पत्तन किया जायेगा।
 2. कम्पनी के सदस्यों/अंशधारकों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्स्फर बुक्स दिनांक 23 सितम्बर, 2022 से दिनांक 29 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।
 3. सभी वेब शेयरर्स के भौतिक रूप में प्रमाणी हस्ताक्षरपत्र होने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों का सामूहिक रजिस्ट्रार कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं अर्बन-हस्तान्तरण अधिकारी से रजिस्ट्रार इंडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1, नोबल हाईटैड, प्रथम तल, सी-1 ब्लाक, सावित्री मार्केट के पास, जलनपुरी, नई दिल्ली-110058 में सौंपा जायेगा।
 4. कम्पनी ने एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों, उपस्थिति पर्ची के साथ प्रॉक्सी फॉर्म का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया है।
 5. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.raghunathanlimited.in पर भी उपलब्ध है एवं सामान्य कार्य दिवसों (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) में व्यवसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिये भी उपलब्ध है।
 6. कम्पनी (प्रधान एवं प्रशासन) निगमावली, 2014 तथा संगोपित निगम 20 तथा सूचियन विनियमों के साथ पठित कानूनी अधिनियम, 2013 की धारा-108 के अंतर्गत 14 (सूचीकृत दायित्व और उद्घाटन अधिका) के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को शेयरन लिमिटेड विद्युत्कृत माध्यमों ("वीसी") अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को उक्त 10.00 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.raghunathanlimited.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर निर्णयों अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल एवं पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए निर्देशित मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.raghunathanlimited.in पर भी उपलब्ध है।

रघुनाथ इन्टरनेशनल लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 3 सितम्बर, 2022 अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

मृगीपा सिस्कोरिटीज लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 87, हरनोदित एक्सेल, तिकतल नगर, दिल्ली-110092
 कॉर्पोरेट पुराना संख्या: L74899DL1994PLC057941
 दूरभाष: 91-11-22373437, वेबसाइट: www.moongipanel.com
 ईमेल: moongipanel@gmail.com

28वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सदस्यों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उक्त अधिनियम द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सम्बन्धित के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विद्युत्कृत माध्यमों ("वीसी") अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को उक्त 11.00 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.moongipanel.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर निर्णयों अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/विद्युत्कृत पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल एवं पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए निर्देशित मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.moongipanel.com पर भी उपलब्ध है।

मृगीपा सिस्कोरिटीज लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 31.8.2022 प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: नई दिल्ली (बैंक ऑफ इंडिया, इण्डियाना एक्स्ट्रेनस)

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi-110015, E-mail: cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com, Phone: 011-49872442, 19

PUBLIC NOTICE – 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 5th May, 2022 read with circular dated 13th January, 2021, 8th April, 2020, 13th April, 2020 & 5th May, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated 13th May, 2022 (collectively referred to as Circulars), on Friday, 30th September, 2022 at 1.30 P.M. To transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time. Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 of the Company will be available on the website of the Company at www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directions issued by the government authorities with respect to Covid-19 pandemic. The e-mail address is not registered with the Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned below:

Physical Holding Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinetra.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already).

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declared by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

For National General Industries Ltd. Sd/- Vandana Gupta Company Secretary A-24012
 Place: New Delhi
 Date: 2nd September, 2022

Shivalik Bimetal Controls Limited
 CIN: L27101HP1984PLC005862
 16-18, New Electronics Complex Chhabghat, Dist. Solan, Himachal Pradesh - 173 213, Phone: 91-11-26027174 Fax: 91-11-26026776 investor@shivalikbimetal.com | www.shivalikbimetal.com

NOTICE OF THE 38th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 27th day of September, 2022 at 10.30 AM (IST) at 4th Floor Hotel City Heights, City Centre Plaza, The Mall (Opposite District Courts), Solan (H.P.)-173212 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 29th August, 2022. In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2021-22 on Saturday, September 03, 2022 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA and the physical copies were dispatched to the other shareholders through permitted mode. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.shivalikbimetal.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. ("NSDL" from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice. The Members of the Company are further informed as follows:

- Date of Completion of dispatch of notice: 03rd September, 2022;
- The remote e-voting shall commence on Saturday, September 24, 2022 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 26, 2022 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 20, 2022 ("Cut-off date").
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.
- The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on September 20, 2022, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.
- In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at investor@nsdl.com, or can also contact with RTA, Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at info@masserv.com phone: -011-26387281-83
- Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.
- The results on resolutions shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions.
- The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetal.com and on RTA's website at www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited. Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Shivalik Bimetal Controls Limited Sd/- (Aarti Sahni) Company Secretary
 Place: New Delhi
 Dated: 03-09-2022

मृगीपा सिस्कोरिटीज लिमिटेड
 हस्ता./-
 सचिव सुभाष कर्णिक सचिव
 तिथि: 3 सितंबर, 2022
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 08/18/22

एस इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लिमिटेड
 CIN: L74140DL1997PLC088373
 पंजी. कार्यालय: सी-13, वीएसआइसी कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया पर्यटन, नई दिल्ली-110092
 ई-मेल: ceo@accintegrated.com, cs@accintegrated.com
 दूरभाष नं: 011-49557949, 011-22169070, वेबसाइट: www.accintegrated.com

25वीं वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एस इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लिमिटेड की 25वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को निर्दिष्ट 5.00 बजे अप. में सी-13, वीएसआइसी कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया पर्यटन, नई दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उक्त अधिनियम द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सम्बन्धित के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विद्युत्कृत माध्यमों ("वीसी") अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा बुधवार, 30 सितम्बर, 2022 को उक्त 5.00 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑनलाइन विद्युत्कृत माध्यमों ("ओवीएएम") द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें आम सभा अर्थात् आम सभा में वर्णित व्यवसायों को विचारित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <https://evotingindia.com> पर उपलब्ध है तथा वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.accintegrated.com पर उपलब्ध है।

मृगीपा सिस्कोरिटीज लिमिटेड के हस्ता./-
 स्थान: दिल्ली एम.एच. विभागीय
 तिथि: 3 सितंबर, 2022